

1 याददाश्त कमज़ोर हो जाना



2 जाने हुए काम करने में कठिनाई



3 भाषा से जुड़ी समस्याएँ



4 समय और स्थान को लेकर भ्रमित होना



6 बातों को ध्यान में रखने में दिक्कत




8 मिज़ाज और व्यवहार में परिवर्तन



9 दृश्य और स्थान संबंधी जानकारी को समझने में कठिनाई



5 निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट



7 चीज़ें इधर-उधर रख देना



10 काम या सामाजिक गतिविधियों से खुद को दूर कर लेना



डिमेंशिया के 10 चेतावनी संकेत

अगर ये लक्षण नए हैं तो ये डिमेंशिया के संकेत हो सकते हैं।

डिमेंशिया उम्र बढ़ने के स्वाभाविक हिस्सा नहीं हैं।

अपने डॉक्टर से बात करें या अपने डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर एसोसिएशन से संपर्क करें।



Alzheimer's Disease
International
The global voice on dementia
www.alzint.org